

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 फरवरी, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन की उन महिलाओं की उपलब्धि और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, 8 मार्च को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) मना रही है, जिन्होंने ब्रैम्पटन को सक्रिय, सहानुभूतिशील और खुशहाल शहर बनाने में योगदान दिया, जो आज यह है।

### अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पैनल चर्चाएं और मुख्य स्पीच

8 मार्च, शाम 5 – 7 बजे तक

ब्रैम्पटन-कैलडन (Brampton-Caledon) के ज़ोंटा क्लब (Zonta Club) के साथ साझेदारी में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, दो व्यक्तिगत पैनल चर्चाएं पेश कर रही है, जिनकी मेजबानी जैम गैम्बल (Jam Gamble) करेंगे और काउंसलर्स शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams) और रोएना सैंटोस (Rowena Santos), इनमें अपने विचार पेश करेंगे।

- महिलाओं से हिंसा न करें: मानव तस्करी (Say No to Violence Against Women: Human Trafficking)
- लोकल महिलाएं और वे ब्रैम्पटन में महिलाओं के सशक्तिकरण लैंडस्केप में कैसे योगदान देती हैं (Local Women & How They Contribute to the Women's Empowerment Landscape in Brampton)

इन सेशन के बाद, सामरा ज़फर (Samra Zafar) के द्वारा मुख्य स्पीच दी जाएगी। वे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध अवॉर्ड-विजेता स्पीकर, प्रसिद्ध लेखिका और समानता, मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय अधिकारों के लिए एजुकेटर हैं।

ये सेशन, इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए, विशेषज्ञों और कम्युनिटी साझेदारों को साथ लाते हैं।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक (स्पांसर), कोका-कोला कैंनेडा बॉटलिंग लिमिटेड (Coca-Cola Canada Bottling Limited) का धन्यवाद।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [brampton.ca/IWD](http://brampton.ca/IWD) पर जाएं।

### एक्सपीरिएंस बॉक्स (Experience Box)

यह लिमिटेड एडिशन, तैयार किए गए गिफ्ट बॉक्स, लोकल महिलाओं के स्वामित्व वाले कारोबारों के उत्पाद और सेवाएं पेश करते हैं। सभी बॉक्सेज में शामिल होगा:

- मूडजक्सल (Moodgxl) के द्वारा हाईड्रेटिंग फेस मास्क (Hydrating Face Masks)
- द संकल्प प्रोजेक्ट (The Sankalpa Project) के द्वारा अफर्मेशन कार्ड्स (Affirmation Cards)
- अरोमा कम्फर्ट्स 4 यू (Aroma Comforts 4 U) के द्वारा बाथ बम्ब्स (Bath Bombs)
- फ्रूट्स एंड रूट्स हॉलिस्टिक्स (Fruits and Roots Holistics) के द्वारा हर्बल बाथ साल्ट्स (Herbal Bath Salts)
- तथा और भी बहुत कुछ!

बॉक्स उन पहले 50 लोगों को प्रदान किए जाएंगे, जो [द इलेन हाउस \(The Ellen House\)](#) के लिए, कम से कम 20 डॉलर की चेरिटेबल डोनेशन देंगे।

### उद्यमियों का सशक्तिकरण करना

ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre) को तीन आगामी कार्यक्रमों की हिमायत करने पर खुशी है, जिनमें लिंग संबंधी समानता को बढ़ाने पर चर्चा होगी, अग्रणी महिला लीडर्स के साथ अर्थपूर्ण बातचीत होगी और हमारी कम्युनिटी में बिजनेसवूमैन का जशन मनाया जाएगा।

- 2 मार्च: ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) की मेजबानी में, [InspiHer](#)
- 9 मार्च: ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड की मेजबानी में, [#BreakTheBias](#) केनेडा के कार्यस्थल का बदलता चेहरा ([#BreakTheBias The Changing Face of Canada's Workplace](#))
- 10 मार्च: स्टार्टअप पील (StartUp Peel) की मेजबानी में, [IWD2022 #BreakTheBias](#)

### हवाले

“इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमसे जुड़ें क्योंकि हम, हमारी कम्युनिटी की उन समर्पित महिलाओं की उपलब्धियों का जशन मना रहे हैं, जिन्होंने ब्रैम्पटन को ऐसा शहर बनाया है, जो आज यह है। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि जॉटा क्लब ब्रैम्पटन-कैलडन के साथ अर्थपूर्ण चर्चाओं में और अवॉर्ड-विजेता स्पीकर, सामरा ज़फर के द्वारा जोशीली स्पीच में हिस्सा लेने के लिए, 8 मार्च के कार्यक्रम में हिस्सा लें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, हम इस शहर में खास प्रभाव डालने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हुए, लिंग संबंधी पूरी समानता हासिल करने हेतु योजनाबद्ध बदलाव करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में हमारा नेतृत्व करने के लिए, सामरा ज़फर, जैम गैम्बल और जॉटा क्लब ब्रैम्पटन-कैलडन का हमारे साथ होना सम्मान की बात है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5

“इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम उन महिलाओं की ताकत और मज़बूती का जशन मनाते हैं, जो हमारी कम्युनिटी का आधार हैं और हमेशा रहेंगी। कम्युनिटी में मानव तस्करी, लिंग संबंधी पक्षपात की गलत धारणाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए, 8 मार्च को, व्यक्तिगत पैनल चर्चा और मुख्य स्पीच वाले कार्यक्रम में हमसे जुड़ें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, बहुत-से कम्युनिटी साझेदारों के बीच सहयोग देखना बहुत ही शानदार है।”

- *शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8*

“8 मार्च को और रोज़ाना, यह महत्वपूर्ण है कि हम, अपनी ज़िंदगियों में मौजूद महिलाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जशन मनाएं और उन्हें सम्मानित करें। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की टीम में शानदार महिलाएं हैं, जो इस संगठन और कम्युनिटी को इकट्ठा, सफल और संपन्न रखती हैं।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)